

न्यूयॉर्क सिटी और स्टेट के प्रमुख तम्बाकू-संबंधी कानूनों का अवलोकन

आयु का प्रमाण



- यह सुनिश्चित करें कि तम्बाकू वाले उत्पाद, ई-सिगरेट्स या वेपिंग से जुड़े उत्पाद, या तम्बाकू-रहित धूम्रपान वाले उत्पाद, जैसे हर्बल सिगरेट्स, तम्बाकू-रहित शीशा, पाइप्स या रोलिंग पेपर्स की मांग करने वाले ग्राहकों की उम्र कम से कम 21 वर्ष है। यदि ऐसा लगता है कि किसी ग्राहक की उम्र 30 वर्ष से कम है, तो आपको स्वीकार्य आयु का प्रमाण मांगना होगा।

रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग



किसी भी तम्बाकू वाले उत्पाद, ई-सिगरेट्स या हर्बल सिगरेट्स को बेचने के लिए आपको चाहिए:

- न्यूयॉर्क सिटी (NYC) उपभोक्ता और श्रमिक संरक्षण विभाग (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) से तम्बाकू रिटेल डीलर लाइसेंस और ई-सिगरेट रिटेल डीलर लाइसेंस (या दोनों)। अधिक जानने के लिए, nyc.gov/dcwp पर जाएं और **"tobacco lottery"** (तम्बाकू-संबंधी लॉटरी) खोजें।
- न्यूयॉर्क स्टेट (NYS) टैक्सेशन और वित्त विभाग से वैध रजिस्ट्रेशन। अधिक जानने के लिए, tax.ny.gov पर जाएं और **"tobacco"** या **"vapor products"** (तम्बाकू या वाष्प उत्पाद) खोजें।

आप 311 पर लाइसेंस के बिना तम्बाकू वाले उत्पाद या ई-सिगरेट्स बेचने वाले स्टोर्स की रिपोर्ट कर सकते हैं।

उत्पाद और पैकेजिंग



- तम्बाकू रिटेलर्स केवल वही तम्बाकू वाले उत्पाद बेच सकते हैं जिनमें कोई स्वाद न हो या तम्बाकू, मेन्थॉल, मिंट या विंटरग्रीन का स्वाद हो।
- ई-सिगरेट रिटेलर्स ई-सिगरेट्स या ई-लिक्विड्स (ई-सिगरेट्स के साथ इस्तेमाल किया जाने वाले लिक्विड्स, चाहे उनमें निकोटीन है या नहीं) बेच सकते हैं जिनमें तम्बाकू का स्वाद है या कोई स्वाद नहीं है।
- रिटेलर्स न्यूनतम आवश्यक पैकेज आकारों के अनुरूप निर्माता की पैकेजिंग में तम्बाकू वाले उत्पाद ही बेचें। सिंगल सिगरेट या सिंगल लिटल सिगार ("लूज़ीज़") न बेचें। विभिन्न तंबाकू वाले उत्पादों के लिए आवश्यक पैकेज आकार पर एक विस्तृत चार्ट nyc.gov/health पर उपलब्ध है। **"tobacco laws"** (तम्बाकू-संबंधी कानून) खोजें।
- रिटेलर्स केवल किसी निर्माता या लाइसेंस प्राप्त थोक डीलर से सिगरेट्स और अन्य तम्बाकू वाले उत्पाद खरीद सकते हैं।

साइनेज और विज्ञापन



- आयु के प्रमाण के चिह्न, टैक्स स्टैम्प के चिह्न और वाष्प उत्पादों के चिह्न (यदि आप ई-सिगरेट्स बेचते हैं) को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ ग्राहक आसानी से उन्हें देख सकें।
- यदि आपका स्टोर किसी स्कूल से 500 फुट के दायरे में है, तो आपके स्टोर के सामने के हिस्से में तथा बाहरी दरवाज़ों और खिड़कियों पर तम्बाकू वाले और वाष्प उत्पादों, ई-सिगरेट्स से संबंधित कोई भी पोस्ट किया गया विज्ञापन, और सामग्री नहीं हो सकती।

कीमतें और टैक्स



- रिटेलर्स को न्यूनतम आवश्यक मूल्य, और टैक्स, पर या उसके अधिक पर तम्बाकू वाले उत्पाद बेचने होंगे। अधिक जानकारी के लिए, nyc.gov/health पर जाएं और **"tobacco laws"** (तम्बाकू-संबंधी कानून) खोजें।
- वाष्प उत्पादों पर 20% पूरक सेल्स टैक्स (और सेल्स टैक्स भी) लगाएं।
- तम्बाकू वाले या वेपिंग उत्पादों के लिए कूपन या छूट पेश या स्वीकार न करें।
- सिगरेट्स का ऐसा कोई पैक न बेचें, बेचने की पेशकश न करें या एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जाएं जिस पर एक वैध NYC/NYS टैक्स स्टैम्प न हो।

अतिरिक्त आवश्यकताएं

- NYC में लोगों को तम्बाकू वाले या ई-सिगरेट उत्पाद डिलिवर न करें।
- सभी तम्बाकू वाले उत्पादों, शीशा, हर्बल सिगरेट्स, और ई-सिगरेट्स और वेपिंग उत्पादों को काउंटर के पीछे या किसी तालाबंद केबिनेट में रखें (कोई ऐसी जगह जो केवल कर्मचारियों के लिए पहुँचने योग्य हो)।
- 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और वह परिसर में मौजूद हो, की सीधी देखरेख के बिना किसी तम्बाकू वाले उत्पाद की बिक्री, वितरण या प्रबंधन नहीं कर सकते।
- टिप्पणी: तम्बाकू और ई-सिगरेट रिटेलर्स वयस्क-उपयोग या मेडिकल कैनबिस बेचने के लिए लाइसेंसों के लिए योग्य नहीं हैं। अधिक विवरण के लिए cannabis.ny.gov/licensing पर जाएं।



NYC वित्त विभाग के जाँचकर्ता और डिप्टी शेरिफ़ यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं कि तम्बाकू से जुड़े टैक्स का भुगतान किया गया है। DCWP के गुप्त अधिकारियों और निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायों का दौरा करना होगा कि वे NYC और NYS के तम्बाकू-संबंधी कानूनों का पालन कर रहे हैं। निरीक्षणों के दौरान उपयोग की जाने वाली चेकलिस्ट्स देखने के लिए, nyc.gov/dcwp पर जाएं और **"tobacco laws"** (तम्बाकू-संबंधी कानून) खोजें।